



### COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, 27 अप्रैल से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा काउंटर बंद किए जाएंगे

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 अप्रैल, 2020) – यह सुनिश्चित करने के लिए कि COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) एमरजेंसी के दौरान, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), अपने समुदाय को सुरक्षित रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, 27 अप्रैल से अगले नोटिस तक, ट्रांज़िट टर्मिनल्स (ब्रैमली टर्मिनल (Bramalea Terminal), ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal), डाउनटाउन टर्मिनल (Downtown Terminal)) पर ग्राहक सेवा काउंटर बंद किए जाएंगे। बिल्डिंग्स खुली रहेंगी ताकि सवारियां वॉशरूम का उपयोग कर पाएं। इसके अलावा, ट्रिनिटी कॉमन टर्मिनल (Trinity Common Terminal) बिल्डिंग, अगले नोटिस तक बंद रहेगी।

हमारे टर्मिनल्स में ग्राहक सेवा काउंटेर्स पर, हाल ही के सप्ताहों में काफी कम ट्रांज़ैक्शन देखा गया है, मुख्य तौर पर ट्रांज़िट संचालनों में बदलावों के कारण, जैसे कम की गई सेवा और मुफ्त किराए।

जिन सवारियों को अपने PRESTO कार्ड लोड करने की जरूरत है, वे [www.PRESTOcard.ca](http://www.PRESTOcard.ca) पर ऑनलाइन या ब्रैमली टर्मिनल और डाउनटाउन टर्मिनल पर उपलब्ध PRESTO टिकट वेंडिंग मशीन्स (PRESTO Ticket Vending Machines) पर ऐसा कर सकते हैं। शेड्यूल्स और ट्रिप प्लानिंग के लिए, सवारियां, 905.874.2999 पर संपर्क केंद्र (Contact Centre) द्वारा ब्रैम्पटन ट्रांज़िट को संपर्क कर सकती हैं।

#### COVID-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।



## Service and Information Update

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)